



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 / 02 श्रावण, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th June, 2023

No. HHC/GAZ/14-307/09-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave *w.e.f.* 03-07-2023 to 15-07-2023 with the permission to prefix 02-07-2023 and suffix

16-07-2023 being Sundays respectively, in favour of Ms. Kanika Chawla, Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur at Nahan.

Certified that Ms. Kanika Chawla is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur at Nahan, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th June, 2023

No. HHC/GAZ/14-349/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 02-06-2023 to 04-06-2023 in favour of Sh. Vikas Bhardwaj, District and Sessions Judge, Hamirpur.

Certified that Sh. Vikas Bhardwaj had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vikas Bhardwaj would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Hamirpur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th July, 2023

No. HHC/GAZ/14-249/2000-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 05 days' commuted leave *w.e.f.* 12-06-2023 to 16-06-2023 in favour of Smt. Aparna Sharma, District and Sessions Judge, Family Court, Shimla.

Certified that Smt. Aparna Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Aparna Sharma would have continued to hold the post of the District and Sessions Judge, Family Court, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th June, 2023

No. HHC/GAZ/14-220/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' commuted leave for 01-06-2023 and 02-06-2023 in favour of Sh. Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Shimla.

Certified that Sh. Bhupesh Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 22nd July, 2023

PCH-HA(3)4/07-19608-19790.—Whereas the names of Gram Sabhas, notified/constituted by the State Government, have been published from time to time in Hindi only;

Whereas the English equivalents of those Gram Sabha area names (Gram Panchayat) have never been published;

Whereas the Hindi and English names of the Gram Panchayats are required to be entered in the Local Government Directory for further use in all software of the Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh, wherever they are required;

Now Therefore, the names of the notified Gram Sabhas/Gram Panchayats of District Bilaspur in both Hindi and English are being published in the Gazette of Himachal Pradesh as per the details mentioned in "**Schedule-A**" for the information and the objections of the general public. The Deputy Commissioner, District Bilaspur is authorized to consider the objection(s) received regarding any variation/error in the names of Gram Sabhas/Gram Panchayats.

Any objection(s) has to be submitted by the concerned person regarding the variation/correction of error in the notified Hindi/English names shown in "**Schedule-A**", within 15 days from the date of publication of this notification, to the Deputy Commissioner, District Bilaspur. Objections, whatsoever, will not be entertained after the expiry of the above stipulated period.

The State Government will issue the final notification for use of the names of the Gram Sabhas of District Bilaspur in the Local Government Directory and other Government Schemes in view of the recommendation of the Deputy Commissioner, District Bilaspur, HP.

Sd/-

Secretary (Panchayati Raj).

"Schedule-A"				
Sl. No.	Name of District	Name of Block	Name of Gram Panchayat in Hindi for the use of LGD(Local Govt. Directory) Purpose and other Govt. work	Name of Gram Panchayat in English for the use of LGD(Local Govt. Directory) Purpose and other Govt. work
1.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बल्ह बल्हवाना	BALH BALWANA
2.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बामटा	BAMTA
3.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बन्दला	BANDLA
4.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बरमाणा	BARMANA
5.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बाडनूदिग्थली	BARNOO DIGTHALI
6.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बेलनाब्राह्मणा	BENLA-BRAHAMNA
7.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बैरीरजादियां	BERI RAJADIAN
8.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	भोली	BHOLI
9.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	बिनौला	BINAULA
10.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	चांदपुर	CHANDPUR
11.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	छकोह	CHHAKOH
12.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	छड़ोल	CHHAROL
13.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	देवली	DEOLI
14.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	देओथ	DEOTH
15.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	धार टटोह	DHAR TATOH
16.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	धौन कोठी	DHAUN KOTHI
17.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	डोभा	DOBHA
18.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	द्रोबड	DROBAR
19.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	घ्याल	GHAYAL

20.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	हरनोडा	HARNORA
21.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	जमथल	JAMTHAL
22.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	जुखाला	JUKHALA
23.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कचौली	KACHAULI
24.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कल्लर	KALLAR
25.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कंदरौर	KANDROUR
26.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कोठीपुरा	KOTHIPURA
27.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कोटला	KOTLA
28.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	कुड्डी	KUDDI
29.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	माकडी मारकण्ड	MAKARI MARKAND
30.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	मलोखर	MALOKHAR
31.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	मैथी	MEHATHI
32.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	नम्होल	NAMHOL
33.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	निचली भटेर	NICHLI BHATER
34.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	निहारखन बासला	NIHARKHAN BASLA
35.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	नोग	NOG
36.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	नौणी	NAUNI
37.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	ओयल	OYAL
38.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	पंजैल खुर्द	PANJAIL KHURD
39.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	पंजगाई	PANJGAIN
40.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	रघुनाथपुरा	RAGHUNATH PURA
41.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	राजपुरा	RAJPURA
42.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	रानी कोटला	RANI KOTLA
43.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	साई खारसी	SAI KHARSI
44.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	स्याहोला	SYAHOLA
45.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	सिहडा	SIHRA
46.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	सिकरोहा	SIKROHA
47.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	सोलगजुरासी	SOLAG JURASI
48.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	सोलधा	SOLDHA
49.	BILASPUR	BILASPUR SADAR	सुई सुरहाड	SUI SURHAD
50.	BILASPUR	GHUMARWIN	अमरपुर	AMARPUR
51.	BILASPUR	GHUMARWIN	औहर	AUHAR
52.	BILASPUR	GHUMARWIN	अवारी-खलीण	AWARI KHALIN
53.	BILASPUR	GHUMARWIN	बकरोआ	BAKROA
54.	BILASPUR	GHUMARWIN	बल्ह चराणी	BALH CHURANI
55.	BILASPUR	GHUMARWIN	बाड़ीमझेडवा	BARI MANJHERWA
56.	BILASPUR	GHUMARWIN	बरोटा	BAROTA
57.	BILASPUR	GHUMARWIN	भपराल	BHAPRAL
58.	BILASPUR	GHUMARWIN	भराडी	BHARARI
59.	BILASPUR	GHUMARWIN	भूलस्वाय	BHULSWAI
60.	BILASPUR	GHUMARWIN	बम	BUM
61.	BILASPUR	GHUMARWIN	छत	CHHAT
62.	BILASPUR	GHUMARWIN	दाभला	DABHLA

63.	BILASPUR	GHUMARWIN	दधोल	DADHOL
64.	BILASPUR	GHUMARWIN	दकडी	DAKRI
65.	BILASPUR	GHUMARWIN	डंगार	DANGAR
66.	BILASPUR	GHUMARWIN	फटोह	FATOH
67.	BILASPUR	GHUMARWIN	गाहर	GAHAR
68.	BILASPUR	GHUMARWIN	गतवाड	GATWAR
69.	BILASPUR	GHUMARWIN	घंडालवीं	GHANDALWIN
70.	BILASPUR	GHUMARWIN	घुमारवीं	GHUMARWIN
71.	BILASPUR	GHUMARWIN	हम्बोट	HAMBOT
72.	BILASPUR	GHUMARWIN	हरलोग	HARLOG
73.	BILASPUR	GHUMARWIN	हटवाड़	HATWAR
74.	BILASPUR	GHUMARWIN	हवान	HAWAN
75.	BILASPUR	GHUMARWIN	कपाहड़ा	KAPAHARA
76.	BILASPUR	GHUMARWIN	करलोटी	KARLOTI
77.	BILASPUR	GHUMARWIN	कसारू	KASARU
78.	BILASPUR	GHUMARWIN	कोट	KOT
79.	BILASPUR	GHUMARWIN	कोठी	KOTHI
80.	BILASPUR	GHUMARWIN	कोटलु ब्राहमणा	KOTLU BRAHMNA
81.	BILASPUR	GHUMARWIN	कुहमझवाड	KUHMAJHWAR
82.	BILASPUR	GHUMARWIN	कुठेड़ा	KUTHERA
83.	BILASPUR	GHUMARWIN	लद्दा	LADDA
84.	BILASPUR	GHUMARWIN	लंजता	LANJTA
85.	BILASPUR	GHUMARWIN	लैहडी -सरेल	LEHRI SARAIL
86.	BILASPUR	GHUMARWIN	लुहारवीं	LUHARWIN
87.	BILASPUR	GHUMARWIN	मल्यावर	MALYAWAR
88.	BILASPUR	GHUMARWIN	मरहाना	MARHANA
89.	BILASPUR	GHUMARWIN	मैहरीकाथला	MEHRI KATHLA
90.	BILASPUR	GHUMARWIN	मोरसिंघी	MORSINGHI
91.	BILASPUR	GHUMARWIN	ननावं	NANAWAN
92.	BILASPUR	GHUMARWIN	पड़यालग	PADYALAG
93.	BILASPUR	GHUMARWIN	पलासला	PALASLA
94.	BILASPUR	GHUMARWIN	पनोह	PANOH
95.	BILASPUR	GHUMARWIN	पनौल	PANOL
96.	BILASPUR	GHUMARWIN	पनतेहड़ा	PANTEHERA
97.	BILASPUR	GHUMARWIN	पपलाह	PAPLAH
98.	BILASPUR	GHUMARWIN	पटेर	PATER
99.	BILASPUR	GHUMARWIN	पट्टा	PATTA
100.	BILASPUR	GHUMARWIN	रोहिन	ROHIN
101.	BILASPUR	GHUMARWIN	सलाओं उपरली	SALAON UPARLI
102.	BILASPUR	GHUMARWIN	संड्यार	SANDYAR
103.	BILASPUR	GHUMARWIN	सरयुन खास	SARIUN KHAS
104.	BILASPUR	GHUMARWIN	सेउ	SEU
105.	BILASPUR	GHUMARWIN	तलवाडा	TALWARA

106.	BILASPUR	GHUMARWIN	तल्याणा	TALYANA
107.	BILASPUR	GHUMARWIN	तड़ोन	TAROUN
108.	BILASPUR	GHUMARWIN	तियून खास	TIYUN KHAS
109.	BILASPUR	JHANDUTTA	बडगांव	BADGAON
110.	BILASPUR	JHANDUTTA	बडोल	BADOL
111.	BILASPUR	JHANDUTTA	बाला	BALA
112.	BILASPUR	JHANDUTTA	बलघाड	BALGHAR
113.	BILASPUR	JHANDUTTA	बल्हसीना	BALHSEENA
114.	BILASPUR	JHANDUTTA	बलोह	BALOH
115.	BILASPUR	JHANDUTTA	बडगांव - गलू	BARGAON GALU
116.	BILASPUR	JHANDUTTA	बरठी	BARTHIN
117.	BILASPUR	JHANDUTTA	बैहना ब्राह्मणा	BEHNA BRAHMANA
118.	BILASPUR	JHANDUTTA	बैहना जट्टां	BEHNA JATAN
119.	BILASPUR	JHANDUTTA	बैरीमियां	BERIMIAN
120.	BILASPUR	JHANDUTTA	भडोली कलां	BHAROLI KALAN
121.	BILASPUR	JHANDUTTA	डाहड	DAHAD
122.	BILASPUR	JHANDUTTA	डमली	DAMLI
123.	BILASPUR	JHANDUTTA	दाड़ी-भाड़ी	DARI BHARI
124.	BILASPUR	JHANDUTTA	दसलेहडा	DASLEHRA
125.	BILASPUR	JHANDUTTA	धणी	DHANI
126.	BILASPUR	JHANDUTTA	डूडीयां	DUDIAN
127.	BILASPUR	JHANDUTTA	गालियां	GALIAN
128.	BILASPUR	JHANDUTTA	गेहडवी	GEHRWIN
129.	BILASPUR	JHANDUTTA	घंडीर	GHANDIR
130.	BILASPUR	JHANDUTTA	घराण	GHARAN
131.	BILASPUR	JHANDUTTA	हीरापुर	HIRAPUR
132.	BILASPUR	JHANDUTTA	जांगला	JANGLA
133.	BILASPUR	JHANDUTTA	जेजवी	JEJWIN
134.	BILASPUR	JHANDUTTA	झबोला	JHABOLA
135.	BILASPUR	JHANDUTTA	झन्डूता	JHANDUTTA
136.	BILASPUR	JHANDUTTA	कलोल	KALOL
137.	BILASPUR	JHANDUTTA	कोसरियां	KOSARIYAN
138.	BILASPUR	JHANDUTTA	कुलज्यार	KULJYAR
139.	BILASPUR	JHANDUTTA	मलांगण	MALANGAN
140.	BILASPUR	JHANDUTTA	मलराओं	MALRAON
141.	BILASPUR	JHANDUTTA	नघ्यार	NAGHIAR
142.	BILASPUR	JHANDUTTA	नखलेहडा	NAKHLERA
143.	BILASPUR	JHANDUTTA	निहाण	NIHAN
144.	BILASPUR	JHANDUTTA	पपलोआ	PAPLOA
145.	BILASPUR	JHANDUTTA	रोहल	ROHAL
146.	BILASPUR	JHANDUTTA	सलवाड़	SALWAR
147.	BILASPUR	JHANDUTTA	समोह	SAMOH
148.	BILASPUR	JHANDUTTA	सनीहरा	SANIHRA

149.	BILASPUR	JHANDUTTA	सुन्हाणी	SUNHANI
150.	BILASPUR	JHANDUTTA	विजयपुर	VIJAYPUR
151.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	बस्सी	BASSI
152.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	बैहल	BEHAL
153.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	भाखड़ा	BHAKHRA
154.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	दबट	DABAT
155.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	धरोट	DHAROT
156.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	घवाण्डल	GHUWANDAL
157.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	ग्वालथाई	GWALTHAI
158.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	खरकड़ी	KHARKRI
159.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	कौंडावाला	KONDAWALA
160.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	कोटखास	KOTKHAS
161.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	कुटेहला	KUTEHLA
162.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	लैहड़ी	LEHRI
163.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	मजारी	MAJARI
164.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	माकड़ी	MAKRI
165.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	मंड्याली	MANDYALI
166.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	मंझेड़	MANJHER
167.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	नकराना	NAKRANA
168.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	री	REE
169.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	रोड़ जामन	ROAD JAMAN
170.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	सलोआ	SALOA
171.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	स्वाहण	SWAHAN
172.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	टाली	TALI
173.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	तनबौल	TANBOUL
174.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	तरसूह	TARSUH

175.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	टरवाड़	TARWAR
176.	BILASPUR	SHREE NAINA DEVI	टोबा संगवाना	TOBA SANGWANA

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 22nd July, 2023

PCH-HA(3)4/07-19791-20109.—Whereas the names of Gram Sabhas, notified/constituted by the State Government, have been published from time to time in Hindi only;

Whereas the English equivalents of those Gram Sabha area names (Gram Panchayat) have never been published;

Whereas the Hindi and English names of the Gram Panchayats are required to be entered in the Local Government Directory for further use in all software of the Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh, wherever they are required;

Now Therefore, the names of the notified Gram Sabhas/Gram Panchayats of District Chamba in both Hindi and English are being published in the Gazette of Himachal Pradesh as per the details mentioned in "**Schedule-A**" for the information and the objections of the general public. The Deputy Commissioner, District Chamba is authorized to consider the objection(s) received regarding any variation/error in the names of Gram Sabhas/Gram Panchayats.

Any objection(s) has to be submitted by the concerned person regarding the variation/correction of error in the notified Hindi/English names shown in "**Schedule-A**", within 15 days from the date of publication of this notification, to the Deputy Commissioner, District Chamba. Objections, whatsoever, will not be entertained after the expiry of the above stipulated period.

The State Government will issue the final notification for use of the names of the Gram Sabhas of District Chamba in the Local Government Directory and other Government Schemes in view of the recommendation of the Deputy Commissioner, District Chamba, H.P.

Sd/-

Secretary (Panchayati Raj).

"SCHEDULE-A"

Sl. No.	Name of District	Name of Block	Name of Gram Panchayat in Hindi for the use of LGD (Local Govt. Directory) Purpose and other Govt. work	Name of Gram Panchayat in English for the use of LGD (Local Govt. Directory) Purpose and other Govt. work
1.	CHAMBA	BHARMOUR	औरा	AURA
2.	CHAMBA	BHARMOUR	बड़ग्राम	BADGRAM

3.	CHAMBA	BHARMOUR	बजोल	BAJOL
4.	CHAMBA	BHARMOUR	भरमौर	BHARMOUR
5.	CHAMBA	BHARMOUR	चन्हौता	CHANHOUTA
6.	CHAMBA	BHARMOUR	चोबिया	CHOBIA
7.	CHAMBA	BHARMOUR	दियोल	DIYOL
8.	CHAMBA	BHARMOUR	दुर्गेठी	DURGETHI
9.	CHAMBA	BHARMOUR	गरोला	GAROLA
10.	CHAMBA	BHARMOUR	घरेड़	GHARED
11.	CHAMBA	BHARMOUR	ग्रौडा	GROUNDA
12.	CHAMBA	BHARMOUR	ग्रीमा	GREEMA
13.	CHAMBA	BHARMOUR	हड़सर	HADSAR
14.	CHAMBA	BHARMOUR	होली	HOLI
15.	CHAMBA	BHARMOUR	जगत	JAGAT
16.	CHAMBA	BHARMOUR	खणी	KHANI
17.	CHAMBA	BHARMOUR	कुगती	KUGATI
18.	CHAMBA	BHARMOUR	कुलेठ	KULETH
19.	CHAMBA	BHARMOUR	कुठेहड़	KUTHEHD
20.	CHAMBA	BHARMOUR	कुवारसी	KUNWARSI
21.	CHAMBA	BHARMOUR	लामू	LAMOO
22.	CHAMBA	BHARMOUR	न्याग्रौ	NAYAGRAM
23.	CHAMBA	BHARMOUR	पूलन	POOLAN
24.	CHAMBA	BHARMOUR	प्रन्घाला	PRANGHALA
25.	CHAMBA	BHARMOUR	रूणुकोठी	RUNUKOTHI
26.	CHAMBA	BHARMOUR	संचुई	SANCHUI
27.	CHAMBA	BHARMOUR	सांह	SANH
28.	CHAMBA	BHARMOUR	सैहली	SEHLI
29.	CHAMBA	BHARMOUR	सियूर	SIYUNR
30.	CHAMBA	BHARMOUR	तुन्दाह	TUNDAH
31.	CHAMBA	BHARMOUR	उलांसा	ULANSA
32.	CHAMBA	BHATTIYAT	अवांह	AWAHN
33.	CHAMBA	BHATTIYAT	बगडार	BAGDAAR
34.	CHAMBA	BHATTIYAT	बैली	BAILLY
35.	CHAMBA	BHATTIYAT	बलांणा	BALANA
36.	CHAMBA	BHATTIYAT	बलेरा	BALERA
37.	CHAMBA	BHATTIYAT	बनेट	BANET
38.	CHAMBA	BHATTIYAT	बनीखेत	BANIKHET
39.	CHAMBA	BHATTIYAT	बाथरी	BATHRI
40.	CHAMBA	BHATTIYAT	बिन्ना	BINNA
41.	CHAMBA	BHATTIYAT	चलामा	CHALAMA
42.	CHAMBA	BHATTIYAT	छलाडा	CHHALADA
43.	CHAMBA	BHATTIYAT	चुहन	CHUHAN
44.	CHAMBA	BHATTIYAT	ढलोग	DHALOG
45.	CHAMBA	BHATTIYAT	धरूं	DHROON

46.	CHAMBA	BHATTIYAT	धुलारा	DHULARA
47.	CHAMBA	BHATTIYAT	गडाना	GADANA
48.	CHAMBA	BHATTIYAT	गाहर	GAHAR
49.	CHAMBA	BHATTIYAT	गरनोटा	GARNOTA
50.	CHAMBA	BHATTIYAT	घटासनी	GHATASNI
51.	CHAMBA	BHATTIYAT	गोला	GOLA
52.	CHAMBA	BHATTIYAT	हटली	HATLI
53.	CHAMBA	BHATTIYAT	होवार	HOBAR
54.	CHAMBA	BHATTIYAT	जन्द्रोग	JANDROG
55.	CHAMBA	BHATTIYAT	जतरून	JATROON
56.	CHAMBA	BHATTIYAT	जियुंता	JIYUNTA
57.	CHAMBA	BHATTIYAT	जोलना	JOLNA
58.	CHAMBA	BHATTIYAT	काहरी	KAHRI
59.	CHAMBA	BHATTIYAT	ककीरा जरेई	KAKIRA JAREI
60.	CHAMBA	BHATTIYAT	ककीरा कस्बा	KAKIRA KASBA
61.	CHAMBA	BHATTIYAT	ककरोटी	KAKROTI
62.	CHAMBA	BHATTIYAT	कामला	KAMLA
63.	CHAMBA	BHATTIYAT	कथेट	KATHET
64.	CHAMBA	BHATTIYAT	काथला	KATHLA
65.	CHAMBA	BHATTIYAT	खड़ेडा	KHADEDA
66.	CHAMBA	BHATTIYAT	खनोडा	KHANORA
67.	CHAMBA	BHATTIYAT	खरगट	KHARGAT
68.	CHAMBA	BHATTIYAT	कुड्डी	KUDDI
69.	CHAMBA	BHATTIYAT	कुडनू	KUDNU
70.	CHAMBA	BHATTIYAT	मेल	MAIL
71.	CHAMBA	BHATTIYAT	मलूण्डा	MALOONDA
72.	CHAMBA	BHATTIYAT	मलूडा	MALUDA
73.	CHAMBA	BHATTIYAT	मनहुता	MANHUTTA
74.	CHAMBA	BHATTIYAT	मनोला	MANOLA
75.	CHAMBA	BHATTIYAT	मोरनू	MORNU
76.	CHAMBA	BHATTIYAT	मोरठू	MORTHU
77.	CHAMBA	BHATTIYAT	मोतला	MOTLA
78.	CHAMBA	BHATTIYAT	नगाली	NAGALI
79.	CHAMBA	BHATTIYAT	नैनीखड्ड	NAINIKHADD
80.	CHAMBA	BHATTIYAT	ओसल	OSAL
81.	CHAMBA	BHATTIYAT	पधरोटू	PADHROTU
82.	CHAMBA	BHATTIYAT	परछोड़	PARCHOD
83.	CHAMBA	BHATTIYAT	परसियारा	PARSIYARA
84.	CHAMBA	BHATTIYAT	पुखरी	PUKHRI
85.	CHAMBA	BHATTIYAT	रायपुर	RAIPUR
86.	CHAMBA	BHATTIYAT	रजैई	RAJAIN
87.	CHAMBA	BHATTIYAT	रुलियाणी	RULIYANI
88.	CHAMBA	BHATTIYAT	साडल	SADAL

89.	CHAMBA	BHATTIYAT	समलेऊ	SAMLEU
90.	CHAMBA	BHATTIYAT	समोट	SAMOT
91.	CHAMBA	BHATTIYAT	शेरपुर	SHERPUR
92.	CHAMBA	BHATTIYAT	सिहुंता	SIHUNTA
93.	CHAMBA	BHATTIYAT	सुदली	SUDLI
94.	CHAMBA	BHATTIYAT	सुरपड़ा	SURPARA
95.	CHAMBA	BHATTIYAT	टप्पर	TAPPER
96.	CHAMBA	BHATTIYAT	तारागढ़	TARAGARH
97.	CHAMBA	BHATTIYAT	थुलेल	THULEL
98.	CHAMBA	BHATTIYAT	टिकरी	TIKRI
99.	CHAMBA	BHATTIYAT	टुण्डी	TUNDI
100.	CHAMBA	BHATTIYAT	तुनुहटी	TUNNUHATTI
101.	CHAMBA	BHATTIYAT	तुरकड़ा	TURKARA
102.	CHAMBA	CHAMBA	औडा	AUDA
103.	CHAMBA	CHAMBA	बरौर	BAROUR
104.	CHAMBA	CHAMBA	भडोह	BHADOH
105.	CHAMBA	CHAMBA	भनोता	BHANOTA
106.	CHAMBA	CHAMBA	चकलू	CHAKLOO
107.	CHAMBA	CHAMBA	चम्बी	CHAMBI
108.	CHAMBA	CHAMBA	चण्डी	CHANDI
109.	CHAMBA	CHAMBA	चीलबंगला	CHEELBANGLA
110.	CHAMBA	CHAMBA	द्रडडा	DRADHA
111.	CHAMBA	CHAMBA	द्रम्मण	DRAMMAN
112.	CHAMBA	CHAMBA	दुलाहर	DULAHAR
113.	CHAMBA	CHAMBA	घघरोता	GHAGHAROTA
114.	CHAMBA	CHAMBA	हमल	HAMAL
115.	CHAMBA	CHAMBA	हरीपुर	HARIPURA
116.	CHAMBA	CHAMBA	जडेरा	JADERA
117.	CHAMBA	CHAMBA	झुलाडा	JHULADA
118.	CHAMBA	CHAMBA	कैला करंगड	KAILA KARANGAD
119.	CHAMBA	CHAMBA	कदला	KANDLA
120.	CHAMBA	CHAMBA	खज्जियार	KHAJJAR
121.	CHAMBA	CHAMBA	कियाणी	KIYANI
122.	CHAMBA	CHAMBA	कोहलडी	KOHLADI
123.	CHAMBA	CHAMBA	कुरैणा	KURAINA
124.	CHAMBA	CHAMBA	कुठेड़	KUTHED
125.	CHAMBA	CHAMBA	मसरूंड	MASROOND
126.	CHAMBA	CHAMBA	निहुई	NIHUI
127.	CHAMBA	CHAMBA	पधर साहो	PADHAR SAHO
128.	CHAMBA	CHAMBA	पलूही	PALUHIN
129.	CHAMBA	CHAMBA	पल्यूर	PLAYOOR
130.	CHAMBA	CHAMBA	पंजोह	PANJOH
131.	CHAMBA	CHAMBA	प्राहनवी	PRAHNVI

132.	CHAMBA	CHAMBA	प्रौथा	PROTHA
133.	CHAMBA	CHAMBA	पुखरी	PUKHRI
134.	CHAMBA	CHAMBA	राजिडु	RAJINDU
135.	CHAMBA	CHAMBA	राजनगर	RAJNAGAR
136.	CHAMBA	CHAMBA	राजपुरा	RAJPURA
137.	CHAMBA	CHAMBA	रिण्डा	RINDA
138.	CHAMBA	CHAMBA	रुपणी	RUPNI
139.	CHAMBA	CHAMBA	साच	SACH
140.	CHAMBA	CHAMBA	सरोल	SAROL
141.	CHAMBA	CHAMBA	सिल्लाघ्राट	SILLAGHRAT
142.	CHAMBA	CHAMBA	सिंगी	SINGI
143.	CHAMBA	CHAMBA	सिढकुंड	SIRHKUND
144.	CHAMBA	CHAMBA	सुंगल	SUNGAL
145.	CHAMBA	CHAMBA	टिकरी	TIKRI
146.	CHAMBA	CHAMBA	उदयपुर	UDAIPUR
147.	CHAMBA	MEHLA	अठलूई	ATHLUI
148.	CHAMBA	MEHLA	बाट	BAAT
149.	CHAMBA	MEHLA	बैली	BAILI
150.	CHAMBA	MEHLA	बकाण	BAKAN
151.	CHAMBA	MEHLA	बखतपुर	BAKHATPUR
152.	CHAMBA	MEHLA	बलोठ	BALOTH
153.	CHAMBA	MEHLA	बन्दला	BANDLA
154.	CHAMBA	MEHLA	बसोधन	BASODHAN
155.	CHAMBA	MEHLA	भडियां	BHADIYAN
156.	CHAMBA	MEHLA	ब्रेही	BREHI
157.	CHAMBA	MEHLA	चडी	CHADI
158.	CHAMBA	MEHLA	छतराडी	CHHATRARI
159.	CHAMBA	MEHLA	दाडवीं	DARWIN
160.	CHAMBA	MEHLA	धिमला	DHIMLA
161.	CHAMBA	MEHLA	डूलाडा	DULARA
162.	CHAMBA	MEHLA	गाण	GAAN
163.	CHAMBA	MEHLA	गागला	GAGLA
164.	CHAMBA	MEHLA	गैहरा	GEHRA
165.	CHAMBA	MEHLA	गुराड	GURAD
166.	CHAMBA	MEHLA	गुवाड	GUWAD
167.	CHAMBA	MEHLA	जांघी	JANGHI
168.	CHAMBA	MEHLA	जटकरी	JATKARI
169.	CHAMBA	MEHLA	करियां	KARIAN
170.	CHAMBA	MEHLA	खुन्देल	KHUNDEL
171.	CHAMBA	MEHLA	किलोड	KILOD
172.	CHAMBA	MEHLA	कीड़ी	KIDI
173.	CHAMBA	MEHLA	कोलका	KOLKA
174.	CHAMBA	MEHLA	कूर	KOONR

175.	CHAMBA	MEHLA	कुम्हारका	KUMHARKA
176.	CHAMBA	MEHLA	कुनेड	KUNED
177.	CHAMBA	MEHLA	कुपाहडा	KUPAHADA
178.	CHAMBA	MEHLA	कुठेड	KUTHER
179.	CHAMBA	MEHLA	लेच	LECH
180.	CHAMBA	MEHLA	लोथल	LOTHAL
181.	CHAMBA	MEHLA	लुड्डू	LUDDU
182.	CHAMBA	MEHLA	मंगला	MANGLA
183.	CHAMBA	MEHLA	मैहला	MEHLA
184.	CHAMBA	MEHLA	फागडी	PAHGADI
185.	CHAMBA	MEHLA	पियुहरा	PIYOOHRA
186.	CHAMBA	MEHLA	प्रीणा	PREENA
187.	CHAMBA	MEHLA	राडी	RADI
188.	CHAMBA	MEHLA	रजेरा	RAJERA
189.	CHAMBA	MEHLA	रठियार	RATHIYAR
190.	CHAMBA	MEHLA	सराहन	SARAHAN
191.	CHAMBA	MEHLA	सुनारा	SUNARA
192.	CHAMBA	MEHLA	टपून	TAPOON
193.	CHAMBA	MEHLA	उटीप	UTEEP
194.	CHAMBA	PANGI	धरवास	DHARWAS
195.	CHAMBA	PANGI	हुडान भटोरी	HUDAN BHATORI
196.	CHAMBA	PANGI	करेल	KAREL
197.	CHAMBA	PANGI	करयास	KARYAS
198.	CHAMBA	PANGI	करयूणी कोठी	KARYUNI KOTHI
199.	CHAMBA	PANGI	किलाड़	KILLAR
200.	CHAMBA	PANGI	कुमार	KUMAR
201.	CHAMBA	PANGI	कुफा	KUFFA
202.	CHAMBA	PANGI	लुज	LUJ
203.	CHAMBA	PANGI	मिन्धल	MINDHAL
204.	CHAMBA	PANGI	फिण्डरू	PHINDROO
205.	CHAMBA	PANGI	पुर्थी	PURTHI
206.	CHAMBA	PANGI	रेई	REI
207.	CHAMBA	PANGI	साच	SACH
208.	CHAMBA	PANGI	साहली	SAHALI
209.	CHAMBA	PANGI	सेचू	SECHU
210.	CHAMBA	PANGI	शौर	SHAUR
211.	CHAMBA	PANGI	शूण	SHOON
212.	CHAMBA	PANGI	सुराल	SURAL
213.	CHAMBA	SALUNI	औहरा	OHRA
214.	CHAMBA	SALUNI	बाड़का	BADKA
215.	CHAMBA	SALUNI	भडेला	BHADELA
216.	CHAMBA	SALUNI	भजोत्रा	BHAJOTRA
217.	CHAMBA	SALUNI	भलेई	BHALEI

218.	CHAMBA	SALUNI	भांदल	BHANDAL
219.	CHAMBA	SALUNI	भुनाड	BHUNAD
220.	CHAMBA	SALUNI	ब्याना	BIANA
221.	CHAMBA	SALUNI	ब्रंगाल	BRANGAL
222.	CHAMBA	SALUNI	डाण्ड	DAND
223.	CHAMBA	SALUNI	दिघाई	DIGHAI
224.	CHAMBA	SALUNI	डियुर	DIUR
225.	CHAMBA	SALUNI	द्रेकड़ी	DREKADI
226.	CHAMBA	SALUNI	गुवालू	GAWALU
227.	CHAMBA	SALUNI	हडला	HADLA
228.	CHAMBA	SALUNI	हिमगिरी	HIMGIRI
229.	CHAMBA	SALUNI	कंधवारा	KANDHWARA
230.	CHAMBA	SALUNI	कंगेड	KANGED
231.	CHAMBA	SALUNI	करवाल	KARWAL
232.	CHAMBA	SALUNI	खड्जोता	KHADJOTA
233.	CHAMBA	SALUNI	खरल	KHARAL
234.	CHAMBA	SALUNI	खरोठी	KHAROTHI
235.	CHAMBA	SALUNI	किहार	KIHAR
236.	CHAMBA	SALUNI	किलोड़	KILOD
237.	CHAMBA	SALUNI	लिगा	LIGGA
238.	CHAMBA	SALUNI	लनोट	LANOT
239.	CHAMBA	SALUNI	मंजीर	MANJEER
240.	CHAMBA	SALUNI	मान्झली	MANJHALI
241.	CHAMBA	SALUNI	मौड़ा	MOUDA
242.	CHAMBA	SALUNI	नडडल	NADAL
243.	CHAMBA	SALUNI	पंजेई	PANJEI
244.	CHAMBA	SALUNI	पिछला डियूर	PICHHLA DIUR
245.	CHAMBA	SALUNI	पुखरी	PUKHRI
246.	CHAMBA	SALUNI	सलूणी	SALOONI
247.	CHAMBA	SALUNI	सालवां	SALWAN
248.	CHAMBA	SALUNI	सेरी	SERI
249.	CHAMBA	SALUNI	सिमनी	SIMNI
250.	CHAMBA	SALUNI	सिंगाधार	SINGADHAR
251.	CHAMBA	SALUNI	सियुला	SIULA
252.	CHAMBA	SALUNI	सूंह	SANOOH
253.	CHAMBA	SALUNI	सुंडला	SUNDLA
254.	CHAMBA	SALUNI	सूरी	SURI
255.	CHAMBA	SALUNI	ठाकरीमट्टी	THAKRIMATTI
256.	CHAMBA	SALUNI	वांगल	WANGAL
257.	CHAMBA	TISA	आयल	AYAL
258.	CHAMBA	TISA	बघेईगढ़	BAGHEIGARH
259.	CHAMBA	TISA	बैरागढ़	BAIRAGARH
260.	CHAMBA	TISA	बणान्तर	BANANTAR

261.	CHAMBA	TISA	भलोडी	BHALODI
262.	CHAMBA	TISA	भंजराडू	BHANJRARU
263.	CHAMBA	TISA	भराड़ा	BHARARA
264.	CHAMBA	TISA	भावला	BHAWALA
265.	CHAMBA	TISA	बौन्देडी	BOUNDERI
266.	CHAMBA	TISA	चांजू	CHANJU
267.	CHAMBA	TISA	चरड़ा	CHARDA
268.	CHAMBA	TISA	चरोड़ी	CHARODI
269.	CHAMBA	TISA	चीह	CHEEH
270.	CHAMBA	TISA	चोली	CHOLI
271.	CHAMBA	TISA	देहग्रां	DEHGRAN
272.	CHAMBA	TISA	देहरा	DEHRA
273.	CHAMBA	TISA	देहरोग	DEHROG
274.	CHAMBA	TISA	देवीकोठी	DEVIKOTHI
275.	CHAMBA	TISA	दियोला	DIYOLA
276.	CHAMBA	TISA	डोंरी	DONRI
277.	CHAMBA	TISA	गड़फरी	GADFARI
278.	CHAMBA	TISA	घुलेई	GHULEI
279.	CHAMBA	TISA	गुईला	GUILA
280.	CHAMBA	TISA	गुवाड़ी	GUWADI
281.	CHAMBA	TISA	हरतवास	HARTWAS
282.	CHAMBA	TISA	जसौरगढ़	JASSOUR GARH
283.	CHAMBA	TISA	झज्जा कोठी	JHAJJA KOTHI
284.	CHAMBA	TISA	जुनास	JUNAS
285.	CHAMBA	TISA	जुनारा	JUNGRA
286.	CHAMBA	TISA	कल्हेल	KALHEL
287.	CHAMBA	TISA	करेरी	KARERI
288.	CHAMBA	TISA	खजुआ	KHAJUA
289.	CHAMBA	TISA	खुशनगरी	KHUSHNAGRI
290.	CHAMBA	TISA	कोहाल	KOHAL
291.	CHAMBA	TISA	कुठेड बुधोडा	KUTHED BUDHODA
292.	CHAMBA	TISA	लेसवीं	LESWIN
293.	CHAMBA	TISA	मंगली	MANGLI
294.	CHAMBA	TISA	नेरा	NERA
295.	CHAMBA	TISA	पधर	PADHAR
296.	CHAMBA	TISA	सनवाल	SANWAL
297.	CHAMBA	TISA	सपरोठ	SAPROTH
298.	CHAMBA	TISA	सत्यास	SATYAS
299.	CHAMBA	TISA	सेईकोठी	SEIKOTHI
300.	CHAMBA	TISA	शलेलाबाडी	SHALELABADI
301.	CHAMBA	TISA	संतेवा (चिल्ली)	SANTEVA (CHILLI)
302.	CHAMBA	TISA	शिरी	SHIRI

303.	CHAMBA	TISA	टेपा	TEPA
304.	CHAMBA	TISA	थल्ली	THALLI
305.	CHAMBA	TISA	थनेईकोठी	THANEIKOTHI
306.	CHAMBA	TISA	टिकरीगढ़	TIKKRIGARH
307.	CHAMBA	TISA	तीसा-1	TISSA-1
308.	CHAMBA	TISA	तीसा -2	TISSA-2
309.	CHAMBA	TISA	विहाली	VIHALI

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Gurvinder Singh s/o Sh. Kulwant Singh, aged 38 years, r/o Mohalla Mugla, P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H. P)

and

Aarti d/o Sh. Kewal Krishan, aged 36 years, r/o Village Nakhli, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 18-08-2009 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 14-08-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 14th Day of July, 2023.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).*

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आशा रानी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव सोंथली, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2696/2023, दिनांक 13-07-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/11002, दिनांक 11-07-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका आशा रानी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव सोंथली, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका आशा रानी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव सोंथली, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 11-07-2023 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आशा रानी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव सोंथली, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 10-01-1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका आशा रानी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव सोंथली, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/
18/2023

तारीख दायरा :
09-06-2023

सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कंडियालू, परगना त्रयादी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कंडियालू, परगना त्रयादी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण—पत्र में सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त चकलू, उप—तहसील पुखरी में मेरा नाम सुरजीत सिंह पुत्र श्री परस राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुरजीत सिंह पुत्र श्री परस राम की जगह सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित
टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

1. श्री रघवीर सिंह पुत्र रमेश चन्द, वासी टीका बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

2. श्रीमती नोमिया कम्बोज, पुत्री दौलत राम, हाउस नं0 438, स्ट्रीट नं0 02, अगरवाल कालोनी, जलालाबाद, फिरोजपुर 152024 (पंजाब) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण Under/ Section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 08-05-2022 को मुकाम जलालाबाद, फिरोजपुर (पंजाब) में हिन्दू रीति—रिवाज अनुसार आपस में विवाह किया है लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत बगवाडा में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 16-08-2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती अमरो देवी पुत्री नानकू राम, वासी टीका उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला
हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

यह दरखास्त श्रीमती अमरो देवी पुत्री नानकू राम, वासी टीका उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1951 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण 01-01-1951 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उहल में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अमरो देवी पुत्री नानकू राम, वासी टीका उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1951 को ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 12-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री प्रकाश चन्द पुत्र प्रभु राम, वासी टीका नौहगी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021-12059, दिनांक 17-06-2023 के अनुसार श्री प्रकाश चन्द पुत्र प्रभु राम, वासी टीका नौहगी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन—पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 06-05-1963 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 06-05-1963 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द पुत्र प्रभु राम, वासी टीका नौहगी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-05-1963 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 12-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती लता कुमारी पुत्री हरी चन्द, वासी टीका भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021-11196, दिनांक 05-06-2023 के अनुसार श्रीमती लता कुमारी पुत्री हरी चन्द, वासी टीका भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन—पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 03-04-1976 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत भेरडा के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 03-04-1976 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भेरडा में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लता कुमारी पुत्री हरी चन्द, वासी टीका भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03-04-1976 को ग्राम पंचायत भेरडा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 12-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate, Shahpur,
Distt. Kangra (H.P.).**

1. Sh. Ravi Kumar age 28 years s/o Sh. Deenu Ram, r/o Village Bhatechh & P.O. Tharu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Pallvi Devi age 22 years d/o Sh. Balwant Singh, r/o Village Laleta, P.O. Tundu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Applicant Sh. Ravi Kumar age 28 years s/o Sh. Deenu Ram, r/o Village Bhatechh & P.O. Tharu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Pallvi Devi age 22 years d/o Sh. Balwant Singh, r/o Village Laleta, P.O. Tundu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 14-11-2022 at Mansa Devi Mandir, Near Chamunda Temple at Chamunda, Distt. Kangra (H.P.) as per hindu rites and custums.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-08-2023. The objection received after 11-08-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-07-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer, Tehsil Dheera,
Distt. Kangra (H.P.)**

In Ref. :

Mukesh Kumar & Shweta

V/s

General Public

Application Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application u/s 16 of the Special Marriage Act 1954 has been received by the under-signed from Mukesh Kumar s/o Sh. Shakti Chand Bhardwaj, r/o Village Gadhiara, P.O. Rajhoon, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) and Shweta d/o Sh. Yogeshwar Singh r/o Village Lahar Buhla, P.O. Dheera, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.). If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 14-08-2023 otherwise marriage will be registered.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-S.D.M.,
Dheera, District Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/23

Pasang Dolma w/o Tashi Lhagyal, r/o Main Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Pasang Dolma w/o Tashi Lhagyal, r/o Main Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे भतीजे का जन्म दिनांक 06-07-2000 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Sonam s/o Karkey के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 06-07-2000 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/23

Tenzin Jungney d/o Late Phuntso, r/o Upper TCV, Dharamshala Cantt. Mcleodganj, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenzin Jungney d/o Late Phuntso, r/o Upper TCV, Dharamshala Cantt. Mcleodganj, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे
बेटे का जन्म दिनांक 18-10-2018 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु
पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को
तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Pema s/o Tenzin Jungney
के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक
11-08-2023 को असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक
शपथ-पत्र जन्म तिथि 18-10-2018 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री गगन सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 1346/तह0/2022

तारीख पेशी : 10-08-2023

शीर्षक.—तुलसी राम बगैरा

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थीगण श्री तुलसी राम पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव व डा0 भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व बबिता पुत्री श्री मोहिन्दर पाल, निवासी गांव नंगल, नियर रविदास मन्दिर नंगल भूर, तहसील पठानकोट, जिला पठानकोट (पंजाब) ता हाल पत्नी श्री तुलसी राम पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव व डा0 भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 21-11-2022 को गांव व डा0 भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थीगण श्री तुलसी राम पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव व डा0 भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व बबिता पुत्री श्री मोहिन्दर पाल, निवासी गांव नंगल, नियर रविदास मन्दिर नंगल भूर, तहसील पठानकोट, जिला पठानकोट (पंजाब) ता हाल पत्नी श्री तुलसी राम पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव व डा0 भूपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री गगन सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /तह0/2023

तारीख पेशी : 11-08-2023

शीर्षक.—विशाल कुमार बगैरा

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थीगण श्री विशाल कुमार पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव माजरा, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व नेखा पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव रिट झिगली ता हाल पत्नी श्री विशाल कुमार पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव माजरा, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 13-08-2020 को गांव माजरा, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत माजरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थीगण श्री विशाल कुमार पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव माजरा, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व नेखा पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव रिट झिगली ता हाल पत्नी श्री विशाल कुमार पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव माजरा, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 11-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।